



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072023-247169
CG-DL-E-10072023-247169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2882]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2023/आषाढ़ 16, 1945

No. 2882]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2023/ASHADHA 16, 1945

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

का.आ. 3007(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 6192 (अ) तारीख 14 दिसम्बर, 2022 जो भारत के राजपत्र सं. 5947, भाग –II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 30 दिसम्बर, 2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हरियाणा राज्य में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को कच्चे तेल के परिवहन के लिए, न्यू मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना के तहत, चुडवा गांव से पानीपत तक पाइपलाइन को तहसील: लाखन माजरा, जिला: रोहतक, राज्य: हरियाणा में बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील - लाखन माजरा		जिला - रोहतक		राज्य- हरियाणा	
गांव का नाम	मुस्तिल नं.	किला नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैन्सी	205	25/1	00	02	44
	205	25/2	00	08	89
	205	16	00	00	86
	204	21	00	00	40
	204	20	00	12	87
	204	11	00	04	42
	204	12	00	09	84
	204	9	00	08	77
	204	8/2	00	05	48
	204	8/1	00	00	10
	204	3	00	11	58
	204	4	00	01	49
	181	23	00	00	14
	181	24	00	13	33
	181	25/1	00	00	10
	181	17	00	03	15
	181	16/2	00	08	91
	181	16/1	00	01	07
	182	20	00	06	64
	182	11	00	06	60
	182	12	00	13	25
	182	13/1	00	04	65
	182	13/2	00	01	18
	182	8/2	00	01	32
	182	8/1	00	05	43
	182	7	00	13	25
	182	6	00	06	34
	182	5/2	00	03	20
	182	5/1	00	04	38
	183	1	00	09	69
	170	21	00	04	54
	170	22	00	12	90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	170	19	00	02	48
	170	23	00	00	10
	170	18	00	14	34
	170	13	00	00	98
	170	17	00	00	69
	170	14/1	00	06	67
	170	14/2	00	05	93
	170	7	00	00	17
	170	15	00	02	00
	170	6	00	13	38
	169	10/1	00	03	19
	169	1/1	00	01	69
	169	1/2	00	09	73
	169	2/1	00	05	86
	169	2/2	00	00	22
	152	22	00	08	32
	152	23	00	07	58
	152	19	00	00	10
	152	18	00	05	48
	152	24	00	00	10
	152	17	00	10	34
	152	14	00	05	04
	152	15	00	12	45
	152	6	00	02	93
	153	11	00	00	10
	153	10	00	14	10
	153	1	00	01	28
	153	9	00	00	48
	153	2	00	14	24
	153	3	00	01	02
	133	22/2	00	00	30
	133	23	00	13	75
	133	18	00	00	10
	133	24	00	03	46
	133	17	00	11	92
	133	16/2	00	05	01
	133	16/1	00	00	57
	133	15/1	00	01	64
	133	15/2	00	08	16
	132	11	00	07	71
	132	10/2	00	07	29
	132	10/1	00	00	38
	132	9	00	09	84

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	132	2/1	00	03	62
	132	2/2/1	00	00	77
	132	2/2/2	00	01	15
	132	3	00	11	96
	119	23	00	03	42
	119	24	00	13	03
	119	25	00	00	10
	119	17	00	01	60
	119	16	00	13	69
	120	20	00	01	65
	120	11	00	10	86
	120	12	00	04	05
	120	9	00	11	14
	120	8	00	06	74
	120	3/2	00	01	54
	120	3/1	00	06	41
	120	4	00	12	53
	120	5/1	00	00	51
	91	24	00	01	47
	91	25	00	13	49
	90	21	00	06	37
	90	20	00	11	88
	90	19	00	01	02
	90	11	00	09	11
	90	12	00	02	31
	90	10/2	00	09	70
	90	10/1	00	00	30
	90	1/2/1	00	00	30
	90	1/2	00	07	64
	90	1/1	00	01	90
	80	25/3	00	01	15
	80	25/2	00	00	56
	80	25/1	00	00	61
	80	16	00	00	10
	81	21	00	09	17
	81	20	00	11	76
	81	11/2	00	03	47
	81	11/1	00	00	10
	81	11/3	00	04	86
	81	12	00	07	73
	81	9	00	08	48
	81	8	00	07	80
	81	3/2	00	01	81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	81	3/1	00	06	46
	81	4/1	00	04	71
	47	24	00	12	76
	47	25	00	00	93
	47	17	00	00	35
	47	16	00	11	39
	47	15	00	03	25
	46	11	00	09	60
	46	10	00	07	64
	46	9	00	06	61
	46	2	00	11	94
	46	3	00	02	31
	40	22	00	00	10
	40	23	00	14	67
	40	24/1	00	00	10
	40	17/2	00	00	89
खरकजाटन	93	18	00	01	98
	93	17	00	10	97
	93	14/2	00	05	19
	93	14/1	00	00	55
	93	15	00	08	50
	93	6	00	08	55
	94	10	00	04	11
	94	1	00	12	77
	94	2	00	00	69
	73	21	00	00	96
	73	22/2	00	11	31
	73	22/1	00	01	98
	73	19	00	04	65
	73	18	00	12	37
	73	17/2	00	03	02
	73	17/1	00	08	17
	73	16	00	11	49
	72	20	00	12	10
	72	19	00	12	10
	72	18	00	12	04
	72	13	00	00	10
	72	17/2	00	08	55
	72	14/1	00	01	48
	72	17/1	00	01	26
	72	14/3	00	00	80
	72	15	00	03	31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	72	16	00	05	13
लाखन माजरा	143	15	00	02	15
	144	20	00	00	65
	144	11	00	14	60
	144	12	00	01	47
	144	10	00	00	36
	144	9	00	14	16
	144	8/1	00	02	46
	144	2	00	00	10
	144	3	00	13	23
	144	4/2	00	00	57
	144	4/1	00	03	13
	141	24/1	00	08	30
	141	24/2	00	01	96
	141	25/1	00	05	01
	141	25/2	00	00	10
	141	16/2	00	06	58
	141	16/1	00	02	69
	140	20/2	00	01	93
	140	20/1	00	03	09
	140	11	00	07	20
	140	12	00	07	61
	140	9	00	06	67
	140	8/2	00	00	78
	140	8/1	00	08	13
	140	3	00	06	78
	140	4/1	00	09	17
	140	4/2	00	01	04
	115	24	00	05	48
	115	25	00	11	51
	115	16	00	04	18
	116	20/2	00	00	39
	116	20/1	00	12	41
	116	11	00	02	89
	116	19	00	00	10
	116	12	00	13	88
	116	9	00	01	80
	116	13	00	00	22
	116	8	00	13	54
	116	3	00	00	10
	116	4	00	02	56
	116	5	00	01	42
	109	24	00	00	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	109	25/1	00	04	17
	109	25/2	00	09	34
	109	16/1	00	00	10
	108	21	00	02	40
	108	20	00	13	27
	108	19	00	01	63
	108	12	00	11	87
	108	13/1	00	03	75
	108	8	00	10	76
	108	7	00	06	23
	108	4/2	00	00	94
	108	4/1	00	08	51
	108	5/1/1	00	07	38
	108	5/1/2	00	00	15
	87	25/1	00	00	71
	87	25/2/1	00	00	65
	87	25/2/2	00	04	68
	88	21	00	08	84
	88	20/3/1	00	00	80
	88	20/2	00	00	68
	88	20/1	00	03	96
	88	19/2	00	10	14
	88	19/1	00	00	10
	88	12/2	00	01	30
	88	12/3	00	04	25
	88	13	00	11	44
	88	8	00	04	25
	88	7	00	12	73
	88	6/2	00	00	10
	88	4	00	02	96
	88	5	00	12	61
	89	1	00	00	10
	77	25	00	01	86
	76	21	00	14	08
	76	20/2	00	00	62
	76	22	00	00	35
	76	19	00	14	13
	76	18/2	00	01	20
	76	18/1	00	00	17
	76	12	00	00	42
	76	13	00	14	24
	76	14	00	02	34
	76	8/2	00	00	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	76	7	00	13	35
	76	6	00	03	56
	76	5/2	00	10	20
	76	5/1	00	01	93
	75	1/2/1	00	00	18
	75	1/1/1	00	03	14
	75	1/1/2	00	00	12
	62	21	00	10	70
	62	22	00	06	47
	62	19/2	00	06	24
	62	19/1	00	02	77
	62	18	00	08	50
	62	13	00	06	97
	62	14	00	10	38
	62	7	00	05	09
	62	6	00	12	25
	62	5	00	03	22
	63	10	00	00	10
	63	1	00	13	84
	63	2	00	00	29
	50	21	00	01	03
	50	22/1	00	10	95
	50	22/2	00	03	28
	50	23	00	01	12
	50	19	00	00	59
	50	18	00	14	29
	50	17	00	02	47
	50	14	00	09	69
	50	15	00	02	18
	50	6	00	11	19
	49	10	00	06	16
	49	1	00	09	32
	49	2	00	08	03
	39	22	00	06	48
	39	23	00	09	91
	39	18	00	05	57
	39	17	00	11	78
	39	14	00	03	69
	39	15/1	00	12	56
	39	15/2	00	00	93
	39	6/2/2	00	00	60
	39	6/2/1	00	01	39
	40	11/1/1	00	00	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40	11/1/2	00	00	10
	40	10/2	00	01	00
	40	10/1	00	13	50
	40	9/2	00	00	10
	40	1/2	00	00	99
	40	2/1	00	06	52
	40	2/2	00	04	98
	28	22	00	11	59
	28	23	00	00	74
	28	19	00	01	12
	28	26	00	00	10
	28	18	00	11	12
	28	13	00	10	98
	28	14	00	00	46
	28	8	00	01	67
	28	7	00	10	67
	28	4/2	00	09	25
	28	4/1	00	02	85
	28	5/1	00	00	24
	22	24	00	01	71
	22	25	00	09	94
	22	16	00	12	25
	22	15	00	02	79
	23	11	00	07	74
	23	10/2	00	07	54
	23	10/1	00	03	76
	23	9/1	00	00	10
	23	1	00	03	45
	23	2	00	08	89
	11	22	00	04	90

[फा. सं. आर-11017/6/2022-ओआर-II/ई-45116]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2023

S.O. 3007(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 5947, Part-II, Section-3, Sub Section(ii) dated 30th December, 2022 vide S.O. No. P6192 (E), dated 14th December, 2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying of Pipeline from Chudva to Panipat under New Mundra - Panipat Pipeline Project by Indian Oil Corporation Limited in **Tehsil- Lakhna Majra** of **Rohtak District** in the State of **Haryana** for transportation of Crude Oil.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public, And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil :- Lakhan Majra		District :- Rohtak		State :- Haryana	
Name of Village	Mustil No.	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bainsi	205	25/1	00	02	44
	205	25/2	00	08	89
	205	16	00	00	86
	204	21	00	00	40
	204	20	00	12	87
	204	11	00	04	42
	204	12	00	09	84
	204	9	00	08	77
	204	8/2	00	05	48
	204	8/1	00	00	10
	204	3	00	11	58
	204	4	00	01	49
	181	23	00	00	14
	181	24	00	13	33
	181	25/1	00	00	10
	181	17	00	03	15
	181	16/2	00	08	91
	181	16/1	00	01	07
	182	20	00	06	64
	182	11	00	06	60
	182	12	00	13	25
	182	13/1	00	04	65
	182	13/2	00	01	18
	182	8/2	00	01	32
	182	8/1	00	05	43
	182	7	00	13	25
	182	6	00	06	34
	182	5/2	00	03	20
	182	5/1	00	04	38
	183	1	00	09	69
	170	21	00	04	54

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	170	22	00	12	90
	170	19	00	02	48
	170	23	00	00	10
	170	18	00	14	34
	170	13	00	00	98
	170	17	00	00	69
	170	14/1	00	06	67
	170	14/2	00	05	93
	170	7	00	00	17
	170	15	00	02	00
	170	6	00	13	38
	169	10/1	00	03	19
	169	1/1	00	01	69
	169	1/2	00	09	73
	169	2/1	00	05	86
	169	2/2	00	00	22
	152	22	00	08	32
	152	23	00	07	58
	152	19	00	00	10
	152	18	00	05	48
	152	24	00	00	10
	152	17	00	10	34
	152	14	00	05	04
	152	15	00	12	45
	152	6	00	02	93
	153	11	00	00	10
	153	10	00	14	10
	153	1	00	01	28
	153	9	00	00	48
	153	2	00	14	24
	153	3	00	01	02
	133	22/2	00	00	30
	133	23	00	13	75
	133	18	00	00	10
	133	24	00	03	46
	133	17	00	11	92
	133	16/2	00	05	01
	133	16/1	00	00	57
	133	15/1	00	01	64
	133	15/2	00	08	16
	132	11	00	07	71
	132	10/2	00	07	29
	132	10/1	00	00	38
	132	9	00	09	84
	132	2/1	00	03	62
	132	2/2/1	00	00	77
	132	2/2/2	00	01	15
	132	3	00	11	96
	119	23	00	03	42
	119	24	00	13	03
	119	25	00	00	10
	119	17	00	01	60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	119	16	00	13	69
	120	20	00	01	65
	120	11	00	10	86
	120	12	00	04	05
	120	9	00	11	14
	120	8	00	06	74
	120	3/2	00	01	54
	120	3/1	00	06	41
	120	4	00	12	53
	120	5/1	00	00	51
	91	24	00	01	47
	91	25	00	13	49
	90	21	00	06	37
	90	20	00	11	88
	90	19	00	01	02
	90	11	00	09	11
	90	12	00	02	31
	90	10/2	00	09	70
	90	10/1	00	00	30
	90	1/2/1	00	00	30
	90	1/2	00	07	64
	90	1/1	00	01	90
	80	25/3	00	01	15
	80	25/2	00	00	56
	80	25/1	00	00	61
	80	16	00	00	10
	81	21	00	09	17
	81	20	00	11	76
	81	11/2	00	03	47
	81	11/1	00	00	10
	81	11/3	00	04	86
	81	12	00	07	73
	81	9	00	08	48
	81	8	00	07	80
	81	3/2	00	01	81
	81	3/1	00	06	46
	81	4/1	00	04	71
	47	24	00	12	76
	47	25	00	00	93
	47	17	00	00	35
	47	16	00	11	39
	47	15	00	03	25
	46	11	00	09	60
	46	10	00	07	64
	46	9	00	06	61
	46	2	00	11	94
	46	3	00	02	31
	40	22	00	00	10
	40	23	00	14	67
	40	24/1	00	00	10
	40	17/2	00	00	89

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kharak Jatan	93	18	00	01	98
	93	17	00	10	97
	93	14/2	00	05	19
	93	14/1	00	00	55
	93	15	00	08	50
	93	6	00	08	55
	94	10	00	04	11
	94	1	00	12	77
	94	2	00	00	69
	73	21	00	00	96
	73	22/2	00	11	31
	73	22/1	00	01	98
	73	19	00	04	65
	73	18	00	12	37
	73	17/2	00	03	02
	73	17/1	00	08	17
	73	16	00	11	49
	72	20	00	12	10
	72	19	00	12	10
	72	18	00	12	04
	72	13	00	00	10
	72	17/2	00	08	55
	72	14/1	00	01	48
	72	17/1	00	01	26
	72	14/3	00	00	80
	72	15	00	03	31
	72	16	00	05	13
Lakhan Majra	143	15	00	02	15
	144	20	00	00	65
	144	11	00	14	60
	144	12	00	01	47
	144	10	00	00	36
	144	9	00	14	16
	144	8/1	00	02	46
	144	2	00	00	10
	144	3	00	13	23
	144	4/2	00	00	57
	144	4/1	00	03	13
	141	24/1	00	08	30
	141	24/2	00	01	96
	141	25/1	00	05	01
	141	25/2	00	00	10
	141	16/2	00	06	58
	141	16/1	00	02	69
	140	20/2	00	01	93
	140	20/1	00	03	09
	140	11	00	07	20
	140	12	00	07	61
	140	9	00	06	67
	140	8/2	00	00	78
	140	8/1	00	08	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	140	3	00	06	78
	140	4/1	00	09	17
	140	4/2	00	01	04
	115	24	00	05	48
	115	25	00	11	51
	115	16	00	04	18
	116	20/2	00	00	39
	116	20/1	00	12	41
	116	11	00	02	89
	116	19	00	00	10
	116	12	00	13	88
	116	9	00	01	80
	116	13	00	00	22
	116	8	00	13	54
	116	3	00	00	10
	116	4	00	02	56
	116	5	00	01	42
	109	24	00	00	13
	109	25/1	00	04	17
	109	25/2	00	09	34
	109	16/1	00	00	10
	108	21	00	02	40
	108	20	00	13	27
	108	19	00	01	63
	108	12	00	11	87
	108	13/1	00	03	75
	108	8	00	10	76
	108	7	00	06	23
	108	4/2	00	00	94
	108	4/1	00	08	51
	108	5/1/1	00	07	38
	108	5/1/2	00	00	15
	87	25/1	00	00	71
	87	25/2/1	00	00	65
	87	25/2/2	00	04	68
	88	21	00	08	84
	88	20/3/1	00	00	80
	88	20/2	00	00	68
	88	20/1	00	03	96
	88	19/2	00	10	14
	88	19/1	00	00	10
	88	12/2	00	01	30
	88	12/3	00	04	25
	88	13	00	11	44
	88	8	00	04	25
	88	7	00	12	73
	88	6/2	00	00	10
	88	4	00	02	96
	88	5	00	12	61
	89	1	00	00	10
	77	25	00	01	86
	76	21	00	14	08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	76	20/2	00	00	62
	76	22	00	00	35
	76	19	00	14	13
	76	18/2	00	01	20
	76	18/1	00	00	17
	76	12	00	00	42
	76	13	00	14	24
	76	14	00	02	34
	76	8/2	00	00	10
	76	7	00	13	35
	76	6	00	03	56
	76	5/2	00	10	20
	76	5/1	00	01	93
	75	1/2/1	00	00	18
	75	1/1/1	00	03	14
	75	1/1/2	00	00	12
	62	21	00	10	70
	62	22	00	06	47
	62	19/2	00	06	24
	62	19/1	00	02	77
	62	18	00	08	50
	62	13	00	06	97
	62	14	00	10	38
	62	7	00	05	09
	62	6	00	12	25
	62	5	00	03	22
	63	10	00	00	10
	63	1	00	13	84
	63	2	00	00	29
	50	21	00	01	03
	50	22/1	00	10	95
	50	22/2	00	03	28
	50	23	00	01	12
	50	19	00	00	59
	50	18	00	14	29
	50	17	00	02	47
	50	14	00	09	69
	50	15	00	02	18
	50	6	00	11	19
	49	10	00	06	16
	49	1	00	09	32
	49	2	00	08	03
	39	22	00	06	48
	39	23	00	09	91
	39	18	00	05	57
	39	17	00	11	78
	39	14	00	03	69
	39	15/1	00	12	56
	39	15/2	00	00	93
	39	6/2/2	00	00	60
	39	6/2/1	00	01	39
	40	11/1/1	00	00	16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40	11/1/2	00	00	10
	40	10/2	00	01	00
	40	10/1	00	13	50
	40	9/2	00	00	10
	40	1/2	00	00	99
	40	2/1	00	06	52
	40	2/2	00	04	98
	28	22	00	11	59
	28	23	00	00	74
	28	19	00	01	12
	28	26	00	00	10
	28	18	00	11	12
	28	13	00	10	98
	28	14	00	00	46
	28	8	00	01	67
	28	7	00	10	67
	28	4/2	00	09	25
	28	4/1	00	02	85
	28	5/1	00	00	24
	22	24	00	01	71
	22	25	00	09	94
	22	16	00	12	25
	22	15	00	02	79
	23	11	00	07	74
	23	10/2	00	07	54
	23	10/1	00	03	76
	23	9/1	00	00	10
	23	1	00	03	45
	23	2	00	08	89
	11	22	00	04	90

[F. No. R-11017/6/2022-OR-II/E-45116]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.